

English	Hindi
<b>Know your rights</b>	<b>अपने अधिकारों से अवगत रहें</b>
The ACT Human Rights Commission promotes the human rights and welfare of all people in the ACT. Contact us if:	ACT Human Rights Commission ACT में सभी लोगों के मानवाधिकारों और कल्याण को प्रोत्साहन देता है। हमसे संपर्क करें, यदि:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• you want to complain about being treated unfairly because of your race, disability, sex, age or gender identity.</li> <li>• you want to complain about a health service, disability service, services for older people or services for children and young people.</li> <li>• you are concerned about a child, young person or an adult who is in a vulnerable situation.</li> <li>• you or someone you care about needs help to get the support or services that should be provided.</li> <li>• you or someone you care about has been the victim of a crime in the ACT. We can provide victims with support and in some circumstances, financial assistance.</li> <li>• you want to know more about how your human rights are protected in the ACT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• आप अपनी नस्ल, विकलांगता, लिंग, आयु या लैंगिक पहचान के कारण अपने साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किए जाने के बारे में शिकायत करना चाहते/चाहती हैं।</li> <li>• आप किसी स्वास्थ्य सेवा, विकलांगता सेवा, वृद्धजनों के लिए सेवा या बच्चों और युवाओं के लिए सेवा के बारे में शिकायत करना चाहते/चाहती हैं।</li> <li>• आप किसी बच्चे, युवा या वयस्क के बारे में चिंतित हैं, जो अतिसंवेदनशील परिस्थिति में है।</li> <li>• आपको या आपसे देखभाल प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराए जाने वाले समर्थन या सेवाएँ प्राप्त करने में सहायता की आवश्यकता है।</li> <li>• आप या आपसे देखभाल प्राप्त करने वाला व्यक्ति ACT में अपराध का शिकार हुआ है। हम पीड़ितों को समर्थन, और कुछ परिस्थितियों में आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं।</li> <li>• आप इस बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते/चाहती हैं कि ACT में आपके मानवाधिकारों का संरक्षण कैसे किया जाता है।</li> </ul>
<a href="https://hrc.act.gov.au/">https://hrc.act.gov.au/</a> (02) 6205 2222	